

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – षष्ठ

दिनांक -02-09-2020

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों पाठ 11 काल के बारे में अध्ययन करेंगे ।

काल

परिभाषा – क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।

काल के भेद

काल के तीन भेद होते हैं –

भूतकाल

वर्तमान काल

भविष्य काल

भूतकाल

परिभाषा – क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त किया जा चुका है या हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं :

जैसे –

दीपिका ने गीत गाया।

दीपिका गीत गा रही थी।

दीपिका गीत गा चुकी थी।

दीपिका गीत गा चुकी होगी।

दीपिका गीत गा चुकी है।

इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया 'गाना' से पता चलता है कि ये क्रियाएँ बीते समय में अलग अलग स्थितियों में संपन्न हुई हैं।

अतः ये भूतकाल की क्रियाएँ हैं।

भूतकाल के उपभेद

भूतकाल के छह उपभेद होते हैं -

सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुहेतुमद् भूतकाल।

सामान्य भूतकाल - क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में सामान्य रूप से पूर्ण करने या होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं :

जैसे - श्रीराम ने रावण को मारा।

माली ने पौधों में पानी डाला।

गृहकार्य

सही उत्तर चुनिए -

(क) ' आयुष पढ़ रहा है।' - यह वाक्य किस काल में है?

(अ) सामान्य वर्तमान काल

(ब) संदिग्ध वर्तमान काल

(स) पूर्ण वर्तमान काल

(द) अपूर्ण वर्तमान काल

(ख) अगर वर्षा होती तो फ़सल अच्छी होती। ' - यह वाक्य किस काल में है?

(अ) सामान्य भविष्यकाल

(ब) संदिग्ध भूतकाल काल

(स) अपूर्ण भूतकाल काल

(द) हेतुहेतुमद् भूतकाल